

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 45: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2025	2026		वि.व. 2024-25	2025	2026	
		फर.	जन.	फर.		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	4	5	6	7
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	47.40	3.72	4.35	4.37	296218030	25171733	32155354	29363078
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	17.87	1.16	1.61	1.62	185733719	14137926	18709470	17227564
1.1.1 आउटराइट	10.56	0.63	0.90	0.94	16056018	1088598	1235356	1339433
1.1.2 रेपो	4.72	0.33	0.46	0.46	77286611	5916603	7775968	6696115
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.58	0.20	0.25	0.22	92391091	7132725	9698147	9192017
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	28.06	2.45	2.64	2.62	100639565	9957432	12450917	11010746
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.46	0.12	0.10	0.13	9844746	1076374	994967	1124767
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	3024.55	244.20	316.99	305.85	201387682	16099371	19176704	18859418
1.1 ग्राहक लेनदेन	3010.32	243.05	315.76	304.72	181153129	14226027	17580604	17509377
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	14.23	1.16	1.23	1.14	20234553	1873344	1596100	1350041
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	2061014.91	177394.61	233364.66	219247.40	79881976	6497660	8078680	7793908
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.64	0.28	0.24	0.23	190	16	14	14
2.2 एपीबीएस \$	32964.43	3103.12	2616.49	2119.52	554034	57097	81195	51081
2.3 आईएमपीएस	56249.68	4048.29	3740.33	3360.96	7139110	563082	672989	642474
2.4 एनएसीएच जमा \$	16938.86	1533.06	1248.95	1702.37	1670223	140881	161580	164970
2.5 एनईएफटी	96198.05	7647.93	8724.20	8122.47	44461464	3540103	4329421	4251141
2.6 यूपीआई @	1858660.25	161061.93	217034.45	203941.84	26056955	2196482	2833481	2684229
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.24	1.15	1.14	2.32	185	13	12	25
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	21659.95	1862.80	2016.80	1989.09	2208583	193068	240345	235001
3.1 भीम आधार पे @	230.08	15.67	17.87	16.45	6907	494	648	636
3.2 एनएसीएच नामे \$	19762.28	1701.10	1865.64	1849.39	2199327	192387	239514	234191
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1667.59	146.03	133.29	123.25	2349	186	184	174
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	63861.15	5052.09	6415.41	5855.08	2605110	201522	237042	210427
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	47740.76	3969.59	5397.11	4937.96	2109197	167208	199085	177292
4.1.1 पीओएस आधारित \$	24571.10	1999.96	2674.95	2434.00	795022	62125	75988	67435
4.1.2 अन्य \$	23169.66	1969.63	2722.16	2503.95	1314175	105083	123097	109857
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	16120.39	1082.50	1018.29	917.12	495914	34314	37957	33135
4.2.1 पीओएस आधारित \$	11980.33	803.42	773.20	689.77	332556	23216	25513	21862
4.2.2 अन्य \$	4140.06	279.07	245.10	227.36	163358	11098	12444	11273
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	70254.08	6398.44	9537.91	8359.24	216751	19236	27626	25969
5.1 वॉलेट	52898.40	4850.75	7716.41	6652.06	154066	14404	20985	19829
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	17355.68	1547.69	1821.50	1707.18	62686	4833	6641	6140
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8240.14	641.84	827.76	793.50	11512	969	1582	1427
5.2.2 अन्य \$	9115.54	905.86	993.74	913.68	51174	3863	5059	4713
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6095.38	462.02	458.71	430.51	7113350	540834	601415	579783
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6095.38	462.02	458.71	430.51	7113350	540834	601415	579783
6.2 अन्य	0.00	-	-	-	-	-	-	-
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2222885.46	191169.95	251793.49	235881.31	92025771	7452321	9185108	8845088
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2225910.01	191414.16	252110.48	236187.16	293413453	23551692	28361812	27704507
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2219814.63	190952.14	251651.77	235756.65	286300103	23010857	27760397	27124723

भाग II- भुगतान माध्यम और चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	FY	2025	2026		FY	2025	2026	
	2024-25	फर.	जन.	फर.	2024-25	फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	4	5	6	7
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1. मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1756976.91	150031.46	199030.19	186834.81	39206221	3215517	4120743	3914509
1.1 इंस्टाबैंक \$	110801.96	8703.42	10652.94	9717.48	7207439	558355	709083	685836
1.2 अंतर-बैंक \$	1646174.95	141328.04	188377.24	177117.33	31998782	2657162	3411659	3228673
2. इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउजर आधारित) @ (2.1 से 2.2)	47478.09	3635.80	3722.95	3521.30	131858133	10339284	13897998	13824038
2.1 अंतर्बैंक @	13056.37	1003.69	844.98	804.89	69086996	5354635	7378948	7438766
2.2 अंतर-बैंक @	34421.72	2632.11	2877.97	2716.41	62771136	4984649	6519051	6385272
बी. एटीएम								
3. एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)	60308.11	4497.97	4437.06	4168.36	3063077	235618	240472	231465
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	97.25	6.84	6.97	6.35	5084	370	394	364
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	59965.70	4473.77	4412.00	4145.12	3046987	234408	239172	230242
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	245.16	17.36	18.09	16.89	11005	840	906	859
4. पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	3.58	0.22	0.15	0.14	37	2	2	2
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	3.33	0.19	0.12	0.11	35	2	2	2
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.25	0.03	0.02	0.03	3	0	0	0
5. माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11640.55	921.64	956.67	867.37	296622	23605	24737	24595
5.1 ईपीएस @	11640.55	915.09	926.03	956.67	296622	23246	24737	24595

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2025	2025	2026	
	तक	फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1. कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	11006.97	10949.92	11544.09	11594.71
1.1 क्रेडिट कार्ड	1098.85	1093.15	1166.52	1177.05
1.2 डेबिट कार्ड	9908.12	9856.77	10377.57	10417.67
2. पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	13401.46	13619.31	22053.38	22673.29
2.1 वॉलेट @	8678.44	9006.43	17268.45	17930.89
2.2 कार्ड @	4723.02	4612.88	4784.92	4742.40
3. एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.56	2.58	2.52	2.53
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.20	2.22	2.14	2.15
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.36	0.36	0.38	0.38
4. माइक्रो एटीएम की संख्या @	14.82	14.68	13.92	13.90
5. पीओएस टर्मिनलों की संख्या	110.98	107.18	115.45	116.65
6. भारत क्यूआर @	67.18	65.48	58.44	58.97
7. यूपीआई क्यूआर *	6579.30	6496.91	7383.80	7542.04

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया है जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।
टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के बाद से डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।
भाग II-ए. निपटान प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
भाग II-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल है।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन घिड़ों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
o बैंकों के मोबाइल ऐप्स और यूपीआई ऐप्स के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
o जुलाई 2017 के डेटा में मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके किए गए वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।
भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके किए गए लेनदेन से संबंधित हैं।
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।